

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 1969/अग्रहायण 4, 1891
No. 390] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 1969/AGRAHAYANA 4, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November 1969

S.O. 4781.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People from the 2-Ferozepur Parliamentary constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Gurcharan Singh (Name)

Village & P. O. Nihal Singh Wala, Teh. Moga (Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Sohan Singh.

PLACE: Ferozepur

Date: 19-11-1969.

(Sd.) A. S. POONI,

Returning Officer,
2-Ferozepur Parliamentary Constituency."

[No. F. 13(1)/69-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

(1469)

विधि संचालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1969

सं० प्रा० 4781.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसके अन्तर्गत उसमें उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार का नाम है, सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है।

घोषणा

लोक सभा के लिए पंजाब राज्य में 2—फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उप-चुनाव।

“निर्वाचन आचरण नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि :—

(नाम) : गुरुचरण सिंह

(पता) : ग्राम तथा डाक घर—निहाल सिंह वाला

तहसील—मोगा

श्री सोहन सिंह के त्याग पत्र के कारण उस सभा में हुई रिक्ति की पूर्ति करने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान—फिरोजपुर

तारीख—19-11-1969.

(ह) ए० एस० पूनी,

चुनाव अधिकारी।

2—फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

[सं० फा० 13(1)/69-लेग-II]

एन० डी० पी० नम्बूविरिपाव, संयुक्त सचिव।